



**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

सांख्यिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

आश्विन 4, गुरुवार, शा के 1941–सितम्बर 26, 2019

Asvina 4, Thursday, Saka 1941–September 26, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur September 18, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/10408 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Partapur Garhi has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Partapur Garhi. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government**

कार्यालय नगर पालिका परतापुर गढ़ी जिला बांसवाडा राज.

प्रपत्र क

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 8044 दिनांक 29.08.2019 के अनुसार नवगठित नगरपालिका परतापुर-गढ़ी की संशोधित सीमा जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर अधिसूचना क्रमांक 1523 दिनांक 10.06.2019 में जारी दिशा निर्देश के अनुरूप पालना के क्रम में नगर पालिका परतापुर गढ़ी के अधिसुचित क्षेत्र के वार्ड प्रस्ताव तैयार कर वार्ड वार सीमाओं का विवरण निम्नानुसार हैं।

वार्ड संख्या	वार्डों की सीमाएं
1	सत्यम होटल के पास आँगनवाड़ी से दक्षिण की ओर अम्बावाड़ी की ओर अशोक सिंह मास्टर के मकान को लेते हुए पृथ्वी सिंह के मकान से पश्चिम की ओर उपर गली में घनश्याम सिंह का मकान शामिल करते हुए आगे बढ़ते हुए शक्ति भाई के मकान से आगे की ओर तेजस्वीनी कॉलेज को शामिल करते हुए नाले तक नाले के किनारे चाप नदी से उत्तर की ओर राजस्व ग्राम गढ़ी की सीमा के किनारे किनारे डुगरपुर रोड से दक्षिण की ओर गढ़ी पुल से होते हुए पुर्व की ओर आँगनवाड़ी केन्द्र तक।
2	गढ़ी बस स्टेप्ड चौराहे से डुगरपुर की तरफ आँगनवाड़ी से दक्षिण की ओर अशोक सिंह के मकान के सामने आबादी को शामिल करते हुए लोकेन्द्र सिंह के मकान से पश्चिम की ओर सलिम के मकान से दायी ओर तेजस्वीनी कॉलेज के पिछे नाले के किनारे दक्षिण की ओर तिराहे से पुर्व दिशा में रावले के सामने होते हुए गढ़ी बस स्टेप्ड चौराहे तक।

3	पिपली चौक गढ़ी से दक्षिण में सेमलिया राजस्व ग्राम गढ़ी की सीमा तक दौलतसिंह के मकान से पश्चिम की ओर गढ़ी सेमलिया की सीमा से किनारे किनारे भण्डार तालाब तक, तालाब से उत्तर की ओर नाले के किनारे किनारे चाप नदी तक, चाप नदी से पूर्व की ओर प्रस्तावित वार्ड से ख्या 1 की सीमा से दक्षिण की ओर प्रस्तावित वार्ड संख्या 2 व वार्ड संख्या 4 की सीमा के किनारे-किनारे परसोलिया रोड पर स्थित क्रस्बिस्तान से पूर्व की ओर पिपली चौक गढ़ी तक ।
4	गढ़ी रावले के गेट से कान्तिलाल मौची के मकान को लेते हुए पश्चिम में हरीजन बस्ती शामिल लेते हुए गढ़ी कब्रीस्तान से पुर्व की ओर रणजित सिंह संस्कृत स्कुल के आगे रहीम लखारा के मकान के कोने से सदर बाजार होते हुए हितेश सोनी के मकान के सामने आबादी को शामिल करते हुए कान्तिलाल मौची के मकान तक।
5	पुरानी गढ़ी ग्राम पंचायत के पिछे पंचाल के मकान से सेवांजली होते हुए रावले के गेट के सामने मेन मार्केट गढ़ी गणपति चौक होते हुए बोरी रोड तक सतिश जैन के मकान से पुर्व में रजाक लखारा के मकान के सामने अशोक खटिक के मकान से नाई वाडा में नाथुलाल नाई के मकान के सामने होते हुए पुरानी ग्राम पंचायत के पिछे पंचाल के मकान तक ।
6	गढ़ी पंचायत के सामने हौली चौक से पुरानी पंचायत के पिछे फुल कुवर सकुल के पास से रामद्ववारा होते हुए दक्षिण में नाई वाडा होते हुए लालचन्द चक्की से पुर्व दिशा में पिपली चौक से दक्षिण में राजस्व ग्राम गढ़ी की सीमा राजकंस्ट्रशन के पास से पुर्व में राजस्व ग्राम नवापादर की सीमा से उत्तर की ओर उपकोष कार्यालय गढ़ी के पास बांसवाडा रोड पर पश्चिम की ओर गढ़ी पंचायत के सामने हौली चौक तक।
7	PHED ऑफिस के कोने से दक्षिण में मोहन बांसफोड के मकान के पास से आगे बढ़ते हुए अजीत के मकान से पश्चिम की ओर होते हुए रेन्ज ऑफिस नया बस स्टेप्प रॉयलइन आदिनाथ कॉलोनी की आबादी को शामिल करते हुए नवापादर की सीमा के उत्तर में उपकोष कार्यालय गढ़ी तक व उपकोष कार्यालय से पूर्व में बांसवाडा रोड होते हुए PHED ऑफिस तक ।
8	पोस्ट ऑफिस परतापुर से दक्षिण की ओर संतपुरा रोड पर दाई तरफ की सम्पूर्ण संतपुरा मोहल्ला की आबादी को शामिल करते हुये। पश्चिम की ओर नवापादर की सीमा के किनारे सड़क से उत्तर की ओर छोटी नहर के किनारे मुस्लिम बस्ती तक व मुस्लिम बस्ती से परतापुर पोस्ट ऑफिस तक ।
9	नवापादर ग्राम की सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को शामिल करते हुये उत्तर में प्रस्तावित वार्ड 8 वार्ड 10 की सीमा व दक्षिण में ग्राम खेरन का पारडा की सीमा तक व पश्चिम में ग्राम नवापादर सेमलिया की सीमा तक का भाग।
10	सागर भाई के मकान से दक्षिण में मोहन बांसफोड के मकान के कोने से अजित भाई के मकान से पुर्व की ओर पोस्ट ऑफिस से उत्तर की ओर प्रभाकर जोशी की दुकान के कोने से हकिमी मोहल्ला अर्शीवाद डेन्टल क्लीनिक के पास होते हुए पश्चिम की ओर गणपति मन्दिर के पास सागर भाई के मकान तक ।
11	बोहरा समाज भवन चार खम्बा से पश्चिम में प्रभाकर जोशी की दुकान के उत्तर में

	हकिमी मौहल्ला होते हुए आर्शीवाद डेन्टल क्लीनिक से बांसवाडा रोड पर हबीब शशी के मकान के कोने से दक्षिण में हुसामी मौहल्ले में फखरु बटर वाला अक्तरी शब्दीर इन्दौरी के मकानों व पिछे की आबादी शामिल करते हुए सैफी मस्जीद के पास बौहरा समाज के भवन तक।
12	सैफुद्दिन नाना के मकान से पश्चिम में सैफी मस्जीद से कुत्बी मौहल्ला में हबीब सन्त्रोड के मकान के पास से कलकत्ता वाला बोहरा की दुकान के सामने युसुफ मिठाई वाला के मकान से उत्तर की ओर बांसवाडा रोड पर पुर्व की ओर परतापुर क्रय विक्रय समिति के सामने मोईयत पुरा बड़ा में मुनवर कोठारी के मकान के सामने से सैफुद्दिन नाना के मकान तक।
13	फिदा हुसैन पट्टी के मकान से पुर्व में नदी की ओर लखारा जमात के भवन से उत्तर की ओर कान्ति जोशी के मकान से पश्चिम की ओर मयतपूरा बड़ा में दक्षिण की ओर अजगर अली कैप्टन के मकान से फिदाहुसैन पट्टी के मकान तक।
14	चार खम्बा गांधी स्मारक को शामिल करते हुए पुर्व में बैक ऑफ बडौदा होते हुए बुरहानी मस्जीद के सामने से सतोरी नदी तक नदी से दक्षिण व पश्चिम में मेन मार्केट रोड चलते हुए नागदा समाज भवन के सामने पश्चिम में पुलिस चौकी परतापुर के सामने की आबादी शामिल करते हुए चार खम्बा गांधी स्मारक तक।
15	परतापुर पोस्ट ऑफिस से पुर्व की ओर काजलीया मौहल्ला होते हुए पण्डया स्कुल के पिछे से पुर्व की ओर पुर्णेश्वर महादेव से श्री गौड ब्राह्मण मौहल्ला हरीशंकर पण्डया के मकान के सामने से आशिश किराना से पश्चिम में सदर बाजार रोड पर सुभाष स्टेडियम के कोने से दक्षिण की ओर परतापुर पोस्ट ऑफिस तक।
16	कशीनाथ संरपच के घर के पास निम के पेड़ से पुर्व दिशा में सत्तोरी नदी तक ,नदी से उत्तर में सदर बाजार रोड तक सदर बाजार रोड से पश्चिम में देवेन्द्र कंसारा के मकान तक ,देवेन्द्र कंसारा के मकान से दक्षिण में बाल कृष्ण भट्ट के मकान से कशीनाथ संरपच के धर के पास नीम के पेड़ तक।
17	पोस्ट ऑफिस परतापुर के पास दक्षिण की ओर संतपुरा रोड पर चलते हुए पुर्व की ओर समाधी मौहल्ला शामिल करते हुए उत्तर की ओर पुणेश्वर महादेव मन्दिर से पश्चिम की ओर काजलीया मौहल्ले के पिछे से होते हुए पोस्ट ऑफिस परतापुर के पास।
18	कशीनाथ संरपच के धर के पास नीम के पेड़ से दक्षिण की ओर आमजा रोड से पश्चिम की ओर समाधी मौहल्ले के पास होते हुए संतपुरा रोड से दक्षिण की ओर खेरन का पारडा सीमा से पुर्व की ओर सत्तोरी नदी तक व नदी के किनारे उत्तर की ओर सर्वेश्वर गौशाला रोड पर पश्चिम की ओर काशीनाथ संरपच के धर के पास नीम के पेड़ तक।
19	सम्पुर्ण रिक्को क्षैत्र व हाउसीग बोर्ड कॉलोनी शामिल करते हुए कबीस्तान के पास से भगोरा रोड क्रोस करते हुए सतोरी नदी पार करते हुये लखारा मस्जिद तक, मस्जिद से उत्तर की ओर न्यू सावरिया फर्निचर के कोने से सतोरी नदी के किनारे किनारे उत्तर की ओर नवागांव, बेडवा की सीमा से पूर्व की ओर एकता कॉलोनी की आबादी

	को लेते हुए हुये बांसवाडा रोड क्रोस करते हुए रिक्को क्षैत्र में लोहारीया पाड़ा की सीमा तक व दक्षिण में कबीस्तान तक ।
20	सरस दुध डेयरी के पास गली से उत्तर की ओर हातीम चैथरी के मकान के सामने होते हुए हातीम चायवाला के धर के सामने आबादी शामिल करते हुए ऑगनवाडी लाम्बी डुगरी एफ को शामिल करते हुए रामा बाई आदिवासी मकान के सामने बंशी रेबारी के खाली प्लाट के सामने कच्ची सड़क पर पूर्व की ओर चलते हुये बेडवा सी.सी.रोड तक, सी. सी. रोड से दक्षिण में डी०पी० के पास से पूर्व की ओर मेक्स फोर्ड स्कूल के सामने से नदी तक, नदी से किनारे किनारे दक्षिण की ओर बेडवा पूल तक पूल से पश्चिम की ओर बांसवाडा रोड की ओर बढ़ते हुए सरस दुध डेयरी के पास गली तक ।
21	ग्रील होटल के पिछे गली से पश्चिम की ओर एहमद ठेकेदार के सामने आबादी को शामिल करते हुए ग्रीन फिल्ड स्कूल ए एम स्कूल से उत्तर की ओर डम्पिंगयार्ड के पास से होते हुए पश्चिम की ओर नहर के किनारे किनारे बाबू भाई डामोर गटु बामनिया के मकान तक, गटु बामनिया के मकान से दक्षिण की ओर लाम्बी डुगरी एफ ऑगनवाडी के सामने आबादी को शामिल करते हुए अब्बास लिमडी वाला के सामने की आबादी को लेते हुए सरस दुध डेयरी से पश्चिम की ओर बांसवाडा रोड पर ग्रील होटल के पिछे गली तक ।
22	ग्रील होटल को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर बांसवाडा रोड पर प्रताप पेट्रोल पम्प के सामने की आबादी को लेते हुए दिपेन्द्र गेस्ट हाउस के आगे बदामी बाई टेलर के मकान के कोने से गली में उत्तर की ओर डां. पिपी शर्मा के मकान के आगे मामा राशन डिलर की टुकान के कोने से उत्तर की ओर भगवती वैष्णव के मकान के कोने से पश्चिम की ओर रमण लाल के मकान के सामने खाली प्लाट से उत्तर की ओर सुरेश के मकान के सामने पश्चिम की ओर शंकर लाल के खाली प्लाट के दक्षिण की ओर कैलाश गवारीया के मकान के सामने प्रकाश सिन्धी के मकान के पश्चिम की ओर विपिन कुरीया के सामने से हरीश जोशी पटवारी का मकान लेते हुए मोरडी स्कूल से कना मामा की टुकान के सामने जगदिश मास्टर के मकान से होते हुए क्रोस रोड तक व रोड से पुर्व की ओर डम्पिंगयार्ड ग्रीन फिल्ड स्कूल होते हुए फयुचर किड्स स्कूल के सामने की आबादी को शामिल करते हुए ग्रील होटल तक ।
23	पारस हांस्पिटल की गली से उत्तर की ओर दिपक भाटीया के मकान के सामने से उत्तर की ओर कान्तिलाल भट्ट के मकान से पुर्व की ओर हरीश पटवारी के मकान के सामने होते हुए प्रस्तावित वार्ड 22 की सीमा के सहारे भगवती वैष्णव के मकान से दक्षिण की ओर डां. पिपी शर्मा के मकान के सामने से बदामी बाई टेलर के सामने से पश्चिम की ओर बांसवाडा रोड पारस हांस्पिटल की गली तक ।
24	जोशी डेन्टल क्लीनिक की गली से उत्तर की ओर महेश पंचाल के धर से होते हुए उत्तर की ओर लक्ष्मण के मकान के कोने से पश्चिम की ओर नयनेश उपाध्याय के सामने की आबादी को लेते हुए मोरडी स्कूल के कोने से दक्षिण की ओर विनोद जैन के धर के कोने से पश्चिम की ओर लक्ष्मण के मकान के सामने धमेन्द्र भाई के

	मकान के कोने से दक्षिण में संजु कलाल के सामने खाली भुमि से पश्चिम की ओर गोविन्द अम्बालाल के मकान के कोने से दक्षिण की ओर रमेश चैहान के मकान से पुर्व की ओर बांसवाड़ा रोड पर जोशी डेन्टल क्लिनिक तक।
25	रमेश चैहान के मकान के पास गली से उत्तर की ओर गोविन्द अम्बालाल के मकान से धमेन्द्र भोई के मकान के पास से होते हुए मोरडी स्कुल के कोने से उत्तर की ओर कना मामा के मकान के आगे जगदिश मास्टर के मकान को शामिल लेते हुए पश्चिम की ओर सिधे चाप नदी तक, नदी के किनारे-किनारे राजस्व ग्राम गढ़ी की सीमा तक व दक्षिण में झूगरपुर रोड से गढ़ी बस स्टेंड होते हुए रमेश चैहान के मकान तक।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका परतापुरगढ़ी

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।